



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 22—सितम्बर 28, 2007 (भाद्रपद 31, 1929)  
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 22—SEPTEMBER 28, 2007 (BHADRA 31, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110 004, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. ए-36011/9/2006-प्रशा.--श्री फौज अहमद किदवई, भा. प्रशा. सेवा (म.प्र.:96) उप सचिव राष्ट्रपति सचिवालय को एतद्वारा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (1) के अंतर्गत श्री निर्तिन वाकणकर, उप प्रेस सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय के स्थान पर तत्काल प्रभाव से जन सूचना अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय मनोनीत किया जाता है।

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110 004, दिनांक सितम्बर 2007

सं. ए-36011/41/1996-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री बरूण मित्रा, भा. प्रशा. सेवा (मणिपुर त्रिपुरा:87) को 25 जुलाई, 2007 से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

एफ.ए. किदवई, उप सचिव

सं. ए-36011/06/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री क्रिस्टी एल. फर्नांडिस, भा. प्रशा. सेवा (गुजरात:73) को 25 जुलाई, 2007 से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

एफ.ए. किदवई, उप सचिव

सं. ए-36011/07/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्रीमती विजय ठाकुर सिंह, भा. वि. सेवा (85) को 06 अगस्त, 2007 से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति सचिवालय में सोशल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करती है।

एफ.ए. किदवई, उप सचिव

सं. ए-36011/17/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री आर.जे. जाधव, भा. प्रशा. सेवा (महा : 96) को 13 अगस्त, 2007 से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

एफ.ए. किदवई, उप सचिव

सं. ए-36011/11/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, डॉ. पार्वती सिंह बैस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (के.स.स्वा. सेवा) को 10 अगस्त, 2007 से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति की चिकित्सक के रूप में नियुक्त करती हैं।

एफ.ए. किदवई, उप सचिव

सं. ए-36011/06/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्रीमती अर्चना दत्ता, भा. सू. सेवा (83) को 13 अगस्त, 2007 से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी (जन सम्पर्क) के रूप में नियुक्त करती हैं।

एफ.ए. किदवई, उप सचिव

सं. ए-36011/15/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री जी.के. दास को 26 जुलाई, 2007 से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

एफ.ए. किदवई, उप सचिव

सं. ए-36011/17/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री आनन्द बी. कुलकर्णी, भा. प्रशा. सेवा (महाराष्ट्र : 82) को 23 अगस्त, 2007 से, अगले आदेश होने तक विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं।

एफ.ए. किदवई, उप सचिव

सं. ए-36011/21/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्रीमती शोबा सैम्युल, कार्यकारी प्रबंधक (गृह प्रबंधन) भारतीय पर्यटक विकास निगम को 14 अगस्त, 2007 से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति सचिवालय में कार्यकारी गृह प्रबंधक के रूप में नियुक्त करती हैं।

एफ.ए. किदवई, उप सचिव

सं. ए-36011/22/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री शरद मेहरा को 03 सितम्बर, 2007 से, अगले आदेश होने तक विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं।

एफ.ए. किदवई, उप सचिव

नई दिल्ली-110 004, दिनांक अगस्त 2007

सं. ए-36011/09/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री फ़ैज अहमद किदवई, भा. प्रशा. सेवा (मध्य प्रदेश : 96) को 03 अगस्त, 2007 से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति सचिवालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

आर.एस. राणा, उप सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. आर एस/02(i)/2002/1996-कार्मिक--अधिसूचना सं. आर एस/2(i)/2002/1995-कार्मिक दिनांक 29 अगस्त, 2007 के अनुक्रम में, राज्य सभा के माननीय सभापति ने डॉ. योगेन्द्र नारायण, भा.प्र.से. (सेवानि.) का राज्य सभा के महासचिव के रूप में वर्तमान कार्यकाल 14 सितम्बर, 2007 तक बढ़ा दिया है।

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आर एस/06(iv)/2007/1997-कार्मिक--श्री गणेशन सुन्दरेशन को राज्य सभा सचिवालय में 30 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी समिति के अध्यक्ष (डॉ. वी. मैत्रेयन) के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त किया गया है।

2. श्री गणेशन सुन्दरेशन की नियुक्ति विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और वह उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2007

सं. ए-12025/01/2005-प्रशा. II:--राष्ट्रपति योजना आयोग में निम्नलिखित अधिकारियों को वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रत्येक के सामने इंगित दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम (सर्व/श्री)	नियुक्ति की तारीख
1.	बी.एस. राठौर, अनुसंधान अधिकारी, योजना आयोग, नई दिल्ली	26.07.2007 (पूर्वाह्न)
2.	जे.आर. मीना, सहायक निदेशक, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी बिल्डिंग, रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली	14.08.2007 (पूर्वाह्न)

एन.के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 27 अगस्त 2007

सं. ए-19 (22)/2000-प्रशा. II:--राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5.3.2005 सभा (सेवा) दिनांक 21.8.2007 के तहत श्री ईश्वर सिंह, सहायक निदेशक (रा.भा.), योजना आयोग के सार्वजनिक उद्यम विभाग में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर स्थानांतरण हो

जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें दिनांक 27.08.2007 (अपराह्न) से योजना आयोग से कार्य-मुक्त किया जाता है।

एन.के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 03 सितम्बर 2007

सं. ए-12025/12/2006-प्रशा. I:--राष्ट्रपति, टैरिफ कमीशन के उप-निदेशक (एस एंड टी), श्री प्रशांत कुमार धर को योजना आयोग में 12,000-375-16,500 रु. के वेतनमान में उप-सलाहकार (केमीकल्स) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 31.08.2007 (अपराह्न) से चार वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 5 अप्रैल 2007

सं. के-11017/03/2007-यू.एस. II:--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री वीरेन्द्र सिंह को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को या इससे पहले, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

राजीव अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 18 अप्रैल 2007

सं. के-13024/01/2007-यू.एस. I:--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री कृष्णसामि नायक्कर मोहनराम, (ii) न्यायविद् श्री पलनिचामि ज्योतिमणि, (iii) न्यायविद् श्री राजु रेगुपति, (iv) न्यायविद् श्रीमती चित्रा वेंकटरामन, (v) न्यायविद् श्री कमालुद्दीन नजीरुल्ला बाषा, (vi) न्यायविद् श्री पूसपाडि पेरूमाल सुब्बराजा जनारदन राजा, (vii) न्यायविद् श्री नारायणन नाडार पाल वसन्दकुमार, (viii) न्यायविद् कुमारी करुप्पैया सुगुणा, (ix) न्यायविद् श्री मुत्तुसामी जेयचन्द्रन, (x) न्यायविद् श्री सुब्रमणियन राजेस्वरन, (xi) न्यायविद् श्री वेलु दनपालन, (xii) न्यायविद् श्री रामलिंगम् सुधाकर (xiii) न्यायविद् श्री जे.ए.के. सम्पत् कुमार को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राजीव अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 27 अगस्त 2007

सं. के-13016/02/2007-यू.एस. II:--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

श्रीमती वीना बीरबल को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी, से दो वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राजीव अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. के-13011/01/2007-यू.एस. II:--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्रीपलनीसामी सतासीवम को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 24 अगस्त 2007

सं. के-13012/02/2007-यू.एस. II:--इस विभाग की दिनांक 22 अगस्त, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से एक वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बैठने और न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-13016/03/2007-यू.एस. II:--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री कैलाश गम्भीर, (ii) न्यायविद् श्री गुरिंदर सिंह सिस्तानी, (iii) न्यायविद् डॉ. एस. मुरलीधर (iv) न्यायविद् कुमारी हिमा कोहली, को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. -14016/26/2004-यू.एस. II:--संयुक्त सचिव (संघ राज्य टी.क्षेत्र), गृह मंत्रालय ने दानिक्स के प्रविष्टि ग्रेड अधिकारी, श्री अश्विनी मुदगल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका चयन होने पर दिए गए तकनीकी त्यागपत्र को दिनांक 17 अगस्त, 2007 के अपराह्न से स्वीकार कर लिया है।

रजनीश तिगल, अवर सचिव

दिनांक 05 सितम्बर 2007

सं. के-14016/17/2006-यू.टी.एस. II:--गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संघ शासित क्षेत्र), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियमावली, 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर 6,500-200-10,500/-रु. के वेतनमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं. अधिकारी का नाम	रैंज सं.	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1. राजेन्द्र कुमार	डी-I/585	14.06.1951
2. सुरेन्द्र सिंह	डी-I/638	28.03.1951
3. मंगल सेन	डी-I/985	30.06.1949

2. दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में ऊपर उल्लिखित तीन अधिकारियों की नियुक्ति सी.डब्ल्यू.पी. सं. 4210/2007 जगदीश चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य के परिणाम के अधधीन होगी।

रजनीश तिगल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. 25/04/2005-जैड.सी.एस.:-इस मंत्रालय के दिनांक 15.09.2006 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय में अधीक्षक, श्री पीताम्बर, की उसी सचिवालय में 6,500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर समिति अधिकारी के रूप में नियुक्ति को एतद्वारा 19 सितम्बर, 2007 से 18 मार्च, 2008 तक छः महीने की आगे अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी के पदभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, जारी रखा जाता है।

सुमिता मुखर्जी, निदेशक (एस.आर.)

नई दिल्ली, दिनांक 07 सितम्बर 2007

सं. ए-32013/05/2007-प्रशा. I:--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थाई अनुभाग अधिकारियों और तदर्थ आधार पर कार्यरत अवर सचिव को के.स.से. के गृह मंत्रालय संवर्ग के अवर सचिव ग्रेड-I में नियमित आधार पर नीचे दिए विवरणानुसार नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं. अधिकारी का नाम	कार्मिक एवं प्रशिक्षण के.स.से. के विभाग के कार्यालय ग्रेड-I में ज्ञापन में के.स.से. नियुक्ति की ग्रेड-I में वरिष्ठता तिथि
-------------------------	---

चयन सूची 2001

1. श्री वी. सुब्रमण्यम	21	01.07.2001
2. श्री पी.के. कौल	26	01.07.2001

3. श्री वी.के. सेठी	36	01.07.2001
4. श्री शिशिर दास, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर टूर आफिसर के पद पर	42	01.07.2001
5. श्रीमती शांता थम्पी	44	01.07.2001
6. श्री गोविन्द सिंह	74	01.07.2001
7. श्री राम स्वरूप	76	01.07.2001
8. श्री हंस राज करारा	80	01.07.2001

चयन सूची 2002

9. श्री के. के. बजाज	40	01.07.2002
10. श्री एस.पी. शोखाण्डा	52	01.07.2002
11. श्री पी.एस. सरीन, उप निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर (प्रबंधन सेवा), आई.एस.टी.एम.	61	01.07.2002
12. श्री रवीन्द्र एन. मिश्रा, उप-निदेशक (प्रशा.) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	73	01.07.2002
13. श्री एन.सी. जाकुप	100	01.07.2002

जे.बी. शर्मा, अवर सचिव

राजभाषा विभाग

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

नई दिल्ली-3, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. ए-35011/01/2004-केहिप्रसं/3560:--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री रविशंकर कौशिक की प्रतिनियुक्ति अवधि अगले 06 माह (अर्थात् 14 मार्च 2008 तक), या अगले आदेशों तक, या इस पद पर किसी पात्र उम्मीदवार की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाए जाने के संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

श्रीमती कुसुमवीर, निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 03 सितम्बर 2007

सं. 13017/16/2007-अ.भा.से. I:--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, डॉ. के.एच. गोविन्द राज, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम.एच. : 95) को

महाराष्ट्र से कर्नाटक में 3 वर्ष की अवधि के लिए दी गई अंतः संवर्ग प्रतिनियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

जिले सिंह विकल, डेस्क अधिकारी

विदेश मंत्रालय

कार्यालय: उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 2007

सं. डी. III/460/सीएफ-8/2006:—भारत की राष्ट्रपति नई दिल्ली में जमैका के मानद प्रधान कौंसल के रूप में श्री नंद खेमका की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती है।

श्री नंद खेमका के कौंसली क्षेत्राधिकार में संपूर्ण भारत होगा, जिसका केंद्र नई दिल्ली है।

शाम के मुद्दगल, उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

सं. डी. III/460/सीएफ-21/2006:—भारत की राष्ट्रपति कोलकाता में किर्गीज गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री प्रमोद कुमार सर्राफ की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती है।

श्री प्रमोद कुमार सर्राफ के कौंसली क्षेत्राधिकार में पश्चिम बंगाल राज्य होगा, जिसका केंद्र कोलकाता है।

शाम के मुद्दगल, उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2007

सं. 87 (फा.सं. ए.-19014/10/2007-प्रशासन-I:—भारत की राष्ट्रपति, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री अरनव आइच को दिनांक 20.07.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए और अगले आदेश तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग में कनिष्ठ विश्लेशक (तस्करी रोधी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 31 जुलाई 2007

शुद्धि पत्र

सं. ए.-19012/05/2001-प्रशा. I:—केन्द्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित अधिकारी श्री राजीव राय, उप निदेशक को दिनांक 24 जुलाई, 2007 से और अगला आदेश होने तक राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्ति से संबंधित राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 88 (फा. सं. ए.-19012/5/2001 प्रशा. से जारी किया गया) के संदर्भ में ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उक्त अधिसूचना में 'वित्त मंत्रालय और कम्पनी कार्य' को 'वित्त मंत्रालय' पढ़ा जाए। अधिसूचना की अन्य विषय-वस्तु अपरिवर्तित बनी रहेगी।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 8 अगस्त 2007

सं. 92 (फा.सं. ए.-19012/15/2007-प्रशा. I:—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 जुलाई, 2007 के आदेश सं. 3/1/2006 सी एस. I के अनुक्रम में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित अधिकारी श्री लाभ सिंह चाने को दिनांक 07.08.2007 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश तक राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 9 अगस्त 2007

सं. 58 (फा.सं. ए.-19011/13/2007-प्रशा. I:—भारत की राष्ट्रपति, श्री सी. राजेन्द्रन, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1971) को दिनांक 17.05.2007 (पूर्वाह्न) से 2 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इन में से जो भी पहले हो 24,050-650-26,000/- रुपए के वेतनमान में कोच्चि में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 91 (फा.सं. ए.-19012/12/2004-प्रशा. I:—इस विभाग की दिनांक 20.10.2004 की अधिसूचना सं. 91 के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, राजस्व विभाग में उप-वित्तीय सलाहकार श्री संजय सिंह (भारतीय लागत लेखा सेवा : 93) को दिनांक 01.08.2007 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की शेष अवधि के लिए अर्थात् 17.10.2009 तक अथवा अगला आदेश होने तक, इन में से जो भी पहले हो उनके लिए व्यक्तिगत उपाय के रूप में राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 10 अगस्त 2007

सं. 93 (फा.सं. ए.-19011/10/2007-प्रशा. I:—भारत की राष्ट्रपति, सुश्री स्वप्ना राय, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1971) को दिनांक 31.05.2007 (अपराह्न) से 2 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इन में से जो भी पहले हो 24,050-650-26,000/- रुपए के वेतनमान में कोलकाता में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 94 (फा.सं. ए.-19011/20/2007-प्रशा. I:—भारत की राष्ट्रपति, श्री डी.पी. पानटा, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1971) को

दिनांक 19.07.2007 (पूर्वाह्न) से 2 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो 24,050-650-26,000/- रुपए के वेतनमान में अहमदाबाद में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 95 (फा.सं. ए.-19011/21/2007-प्रशा. I:--भारत की राष्ट्रपति, श्री एस.के. अय्यर, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1971) को दिनांक 16.07.2007 (पूर्वाह्न) से 2 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो 24,050-650-26,000/- रुपए के वेतनमान में बेंगलूर में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 97 (फा.सं. ए.-19011/23/2007-प्रशा. I:--भारत की राष्ट्रपति, श्री एन.बी. सिंह, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1971) को दिनांक 07.08.2007 (अपराह्न) से और अगला आदेश तक, राजस्व विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क. बोर्ड) में सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. 87 (फा.सं. ए.-19012/16/2007-प्रशा. I:--राष्ट्रपति, श्री एस.के. गोतर्, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1995) को दिनांक 09.08.2007 (पूर्वाह्न) से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में उप सचिव नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2007

सं. 2007 (फा.सं. ए.-32014/1/2002-प्रशा. I क:--व्यय विभाग, संवर्ग प्रशासन अनुभाग के दिनांक 23.07.2007 के का.ज्ञा.सं.ए. 32014/4/2007 सी.ए.एस. के अनुसरण में, राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की प्रधान निजी सचिवों के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 31.12.2007 तक छः मास की अवधि के लिए अथवा नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं:--

श्री/सर्वश्री/श्रीमती

1. सी. गोपीनाथन
2. मनन्दर जीत सिंह
3. ए. बालाकृष्णन
4. वी.पी. कुंजाचन
5. वी.बी. शर्मा

6. एस.के. गुप्ता
7. एस.के. श्रीवास्तव
8. राश कुमारी घई
9. पी.एल. सोनी
10. आर.के. वर्मा

2. अन्य सभी सेवा शर्तें और परिस्थितियां जो चल रही हैं आगे अपरिवर्तित रहेंगी।

भूपिन्दर सिंह, अवर सचिव

सं. 2007 का (फा.सं. ए.-19013/3/2003-प्रशा. I क:--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.4.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/5/2007 सी एस II और संवर्ग प्रशासन अनुभाग, व्यय विभाग के का.ज्ञा.सं. ए-32022/2/2004 सी ए एस, दिनांक 23.07.2007 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री आर.के. मसंद की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ पदोन्नति को 31.12.2007 तक छह महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, और आगे बढ़ाते हैं।

वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री आर.के. मसंद की तदर्थ पदोन्नति उनको पद में अनिश्चित काल तक पद में बने रहने अथवा प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में किसी वरिष्ठता के दावे का कोई अधिकार नहीं देगी।

भूपिन्दर सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 2007

शुद्धि-पत्र

सं. (फा.सं. 4/4/2007-प्रशा.प्र.नि.:--इस मंत्रालय की दिनांक 19.06.2007 की समसंख्यक अधिसूचना का संदर्भ-I अधिकारी के नाम को "संजय त्रिपाठी" के बदले में "संजय त्रिपाठी" पढ़ा जाए।

वी.पी. अरोड़ा, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2007

सं. ए-19011/9/1999-प्रशा. 1ए (पेंशन):--आर्थिक कार्य विभाग में अपर बजट अधिकारी, श्री प्रेम रंजन दास, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 31.08.2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। उनका नाम इसी तारीख से विभाग की नामावली से हटा दिया जाएगा।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 06 सितम्बर 2007

सं. ए-22011/1/2007-प्रशा. 1ए:--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान अधिकारी श्री अनुपम मित्रा (भारतीय आर्थिक

सेवा) को दिनांक 20 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500/-रु. के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 अगस्त 2007

सं. ए-13/7/2007-डीआरटी--श्री एस.के. महापात्रा, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, रांची, अपने कार्यकाल की समाप्ति पर, 14 अगस्त, 2007 (अपराह्न) से, पीठासीन अधिकारी के पदभार से मुक्त हो जाएंगे।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. ए-19014/1/2007-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, रक्षा मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी श्री प्रणय कुमार सोनी को प्रतिनियुक्ति आधार पर 16.07.2007 (पूर्वाह्न) से, तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/-रुपए के वेतनमान में ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-19014/3/2007-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (कार्य) के अधिकारी श्री सुशांत कुमार अधिकारी को प्रतिनियुक्ति आधार पर 06.07.2007 (पूर्वाह्न) से, तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 12,750-375-16,500/-रुपए के वेतनमान में ऋण वसूली अधिकरण-I, कोलकाता में सचिव/पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. ए-19014/7/2007-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, रक्षा मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी श्री अनंत रामा अराली को प्रतिनियुक्ति आधार पर 14.06.2007 (पूर्वाह्न) से, तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/-रुपए के वेतनमान में ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर में सहायक पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. ए-13/7/2002-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, डॉ. एस.डी. सिंह, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I कोलकाता, को तत्काल प्रभाव से, अपने कार्यभार के साथ-साथ, बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी का कार्यभार भी संभालने के लिए प्राधिकृत करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. 13/7/2002-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री एम. आर. फारुकी, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, पटना, को तत्काल प्रभाव से, अपने कार्यभार के साथ-साथ, बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, रांची का कार्यभार भी संभालने के लिए प्राधिकृत करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. ए-19011/255/2005-स्थापना--वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव श्री डी.पी. सहरावत, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, 31 अगस्त, 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अमरीक सिंह, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 03 सितम्बर 2007

सं. ए-12026/5/2007-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री मनोज सहाय, आई.ए. एंड ए.एस. (1994) को दिनांक 3 सितम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर 12,000-375-16,500/-रुपए के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 5 सितम्बर 2007

सं. ए-12026/5/2007--राष्ट्रपति, श्री प्रवीण कुमार मोंगा, आई ए एण्ड ए एस (1995) को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 12,000-375-16500/-रुपए के वेतनमान में दिनांक 10/8/2007 की अपराह्न से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा उनके अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उप सचिव के पद पर नियुक्त करती है।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. ए.32013/1/2006-प्रशा. II--राष्ट्रपति, इस विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक के निम्नलिखित सहायक उप निदेशकों की 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में उप निदेशकों के रूप में की गई तदर्थ पदोन्नति को 19.7.2007 से 18.1.2008 की छह माह की अवधि के लिए अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाती हैं:-

1. श्री बी.एल. शर्मा
2. श्री रविन्द्र कुमार

2. तदर्थ नियुक्ति से उक्त अधिकारियों को यह अधिकार नहीं होगा कि वे इस पद पर नियमित पदोन्नति हेतु दावा करें तथा इस ग्रेड में तदर्थ आधार पर उनके द्वारा की गई सेवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु शामिल नहीं की जाएगी।

मीताली घोष, अवर सचिव

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 22 अगस्त 2007

सं.-1/3/2007-प्रशा.--राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय में स्थायी रूप से कार्यरत निजी सचिव श्री एम.पी. बालाकृष्णन को इस प्राधिकरण में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में दिनांक 21 अगस्त 2007 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक या इस कार्यालय के बंद होने तक, जो भी पूर्वघटित/पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रमुख निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

हनवंत किशोर, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 2007

शुद्धि-पत्र

सं. ए-12011/1/2007-स्थापना--इस मंत्रालय की दिनांक 15 मई, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) श्री एस. सी. बत्रा की नियुक्ति की तारीख 23 अप्रैल, 2007 (पूर्वाह्न) की बजाय 20 अप्रैल, 2007 (अपराह्न) पढ़ी जाए।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 2007

सं. ए.-11011/5/2006-मा. सं. II--रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 16.8.2007 के आदेश सं. ईआरबी-1/2007-2/48 द्वारा नामित किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री दीपक कुमार को

दिनांक 24.8.2007 के पूर्वाह्न से या अगले आदेशों तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 14,300--18300/-रुपए के वेतनमान में उर्वरक विभाग में निदेशक (संचालन) नियुक्त करते हैं।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. ए-32011/9/2007-मा.सं-II--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11-7-2007 के का.ज्ञा.संख्या 5/5/2007-सी एस-II में दिए गए अनुदेशों के अनुसरण में श्री नन्द लाल वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव की तदर्थ प्रोन्नति को 1-7-2007 से 31-12-2007 तक की अवधि के लिए या नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ प्रकृति की है और इससे उन्हें इस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने या सीएसएसएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

सं. ए-32011/9/2007-मा.सं-II--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11-7-2007 के का.ज्ञा.संख्या 5/5/2007-सी एस-II में दिए गए अनुदेशों के अनुसरण में श्री ए.के. बहल वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव की तदर्थ प्रोन्नति को 1-7-2007 से 31-12-2007 तक की अवधि के लिए या नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ प्रकृति की है और इससे उन्हें इस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने या सीएसएसएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

सं. ए-32011/10/2007-मा.सं-II--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-7-2007 के का.ज्ञा.संख्या 5/6/2007-सी एस-II में दिए गए अनुदेशों के अनुसरण में श्री वि.एस. मानियम वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव की तदर्थ प्रोन्नति को 1-7-2007 से 31-12-2007 तक की अवधि के लिए या नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ प्रकृति की है और इससे उन्हें इस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने या सीएसएसएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

रघुनाथ राय, अवर सचिव



दिनांक 5 सितम्बर 2007

सं. ए-32011/10/2007-मा.सं-II--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-7-2007 के का.ज्ञा.संख्या 5/6/2007-सी एस-II में दिए गए अनुदेशों के अनुसरण में श्री एन. हेमराजानी वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव की तदर्थ प्रोन्नति को 1-7-2007 से 31-12-2007 तक की अवधि के लिए या नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ प्रकृति की है और इससे उन्हें इस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने या सीएसएसएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 2007

सं. 3/2/2006-स्था.--गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 21.8.2007 के कार्यालय आदेश सं. 5/3/2005-रा.भा. (सेवा) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री रवि दत्त को 27.8.2007 (अपराह्न) से खान मंत्रालय में सहायक निदेशक(राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. के. मल्होत्रा, उप सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110 016, दिनांक 5 सितम्बर 2007

सं. एस.एम. 01/28/2006--राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निम्नलिखित, उप अधीक्षक सर्वेक्षकों को अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर पदोन्नति पर उसी संगठन में 10,000-325-15,200/-रुपये के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

क्र. सं. अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1. श्री नीरज कुमार	14.08.2007
2. श्रीमती बिन्दु मनगत	18.07.2007

बी.के. रायचन्दानी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. ए-12025/31/2006-सी.एच.एस.III-- राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. नीरा चौधरी को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग के तांत्रिका विज्ञान विशेषज्ञता में सहायक आचार्य के पद पर 22.04.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक एक वर्ष परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. ए-12025/17/2005-सी.एच.एस.III-- राष्ट्रपति, डॉ. बासुदेव दास को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग की मनश्चिकित्सा विशेषज्ञता में सहायक आचार्य के पद पर 28 दिसम्बर 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक एक वर्ष परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2007

सं. ए-38013/01/2007-स्था.I-- केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की अधिकारी तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में निजी सचिव के पद पर तैनात श्रीमती संतोष मल्होत्रा, निजी सचिव, अधिवर्षितावय प्राप्त कर लेने पर 31 अगस्त, 2007, अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं।

पी.जी. कलाधरन, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी  
(आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 2007

सं. ए-19011/2/2007-आयुष (स्था.II)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/6/2007 सी.एस.I (डेस्क) दिनांक 04.07.2007 और आदेश संख्या 5/8/2007 सी.एस.I (डेस्क) दिनांक 17.07.2007 व 26/7/2007 के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथियों से अगले आदेशों तक आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 10,000-325-15,200/-रु. के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त किया जाता है:--

क्र. सं.	नाम	अवर सचिव के रूप में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री सुमन चटर्जी (सीएसएल सं. 5755)	31.07.2007 (पूर्वाह्न)
1.	श्री सोमदत्त शर्मा (सीएसएल सं. 5766)	24.07.2007 (पूर्वाह्न)

2. तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में उपरोक्त उल्लिखित अधिकारियों की प्रोन्नति निम्न शर्तों के अधीन है:--

- तदर्थ प्रोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चुनिंदा सूची में समावेश होने या ग्रेड I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा।
- तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बगैर किसी समय भी समाप्त किया जा सकता है।

(iii) तदर्थ नियुक्ति केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुख्य बेंच, नई दिल्ली के अंतर्गत एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005, एम.ए. सं. 2710/2005 के आदेश दिनांक: 11/1/2007 के अध्वधीन होगा।

अंशुमन शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. ए-38012/1/2006-आयुष (स्था. II) :--सी एस एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम में 9 के उपबंधों के अधीन एफ आर 56 (ट) (I) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी नोटिस की स्वीकृति के, परिणाम स्वरूप, केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी, श्री ए.के. निगम, अवर सचिव, आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में दिनांक 1.06.2007 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

अंशुमन शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. ए-12022/1/99-भाचिप (स्था. II) :--राष्ट्रपति, श्रीमती मीनाक्षी नेगी, भारतीय वन सेवा (कर्नाटक: 1989) से संबंधित अधिकारी को 21 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

अंशुमन शर्मा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2007

सं. 19011/532/2007 (स्था. II) :--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, श्री विजय कुमार भटनागर, नियमित वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा) को सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद पर 7,500-250-12,000/-रु. के वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति आधार पर 25 जुलाई, 2007 से 6 माह की अवधि के लिए अथवा नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।

2. उल्लिखित नियुक्ति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर है और सहायक निदेशक (रा.भा.) के ग्रेड में वरिष्ठता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. 19011/531/2007 (स्था. II) :--राष्ट्रपति श्री ए.के. अग्रवाल, भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे.ए.जी.) के अधिकारी को इस विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर 12,000-16,500/-रु. के वेतनमान में 28.06.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 29 अगस्त 2007

सं. 19011/533/2007 (स्था. II) :--राष्ट्रपति भारत के कार्यालय से श्रीमती विमला शर्मा सहायक निदेशक (रा.भा.) का स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप, दिनांक 30 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से 7,500-250-12,000/-रु. के वेतनमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग में तैनात करते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

सं. 32011/13/2006 (स्था. II) :--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग की एक नियमित वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सहकारिता/ऋण), ग्रेड-I श्रीमती सीमा सेठी को दिनांक 03 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक 8,000-275-13,500/-रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर सहायक निदेशक (सहकारिता/ऋण) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. 19012/08/2007 ई.ए. :--राष्ट्रपति, श्री एन. श्रीनिवास राव, भारतीय आर्थिक सेवा (आई.ई.एस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे.ए.जी.) के एक अधिकारी को 12,000-375-16,500/-रु. के वेतनमान में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप आर्थिक सलाहकार के पद पर 28 मई, 2007 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

यह प्रोन्नति शीर्ष न्यायालय में लम्बित सिविल अपील 1366-1367/2004 और दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित सिविल रिट याचिका संख्या 5953/2002 में अन्तिम आदेश पर निर्भर है।

के. संजयन, अवर सचिव

सं. 19012/09/2007 ई.ए. :--राष्ट्रपति, श्री संजय, भारतीय आर्थिक सेवा (आई.एस.एस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे.ए.जी.) के एक अधिकारी को 12,000-375-16,500/-रु. के वेतनमान में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप आर्थिक सलाहकार के पद पर 21 जून, 2007 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

यह प्रोन्नति तदर्थ आधार पर है और यह विभिन्न न्यायालयों में इस विषय पर लम्बित वादों के लिए जाने वाले निर्णयों पर निर्भर करेगी।

के. संजयन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 03 सितम्बर 2007

सं. 4-2/2004 विस्तार--राष्ट्रपति, श्री मनोरंजन पाण्डा, सहायक प्रबन्धक (एफ एण्ड ए) रेल विकास निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर को विस्तार निदेशालय में 10,000-325-15,200/-रु. के वेतनमान में उप निदेशक (लेखा), सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-क, राजपत्रित के पद पर 06 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्ष से अनधिक की अवधि अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

रानी तलरेजा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2007

सं. 27-2738/2007 स्था. I:--राष्ट्रपति, श्री प्रशांत कुमार स्वेन, आईपीओएस (87) को कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग में निदेशक के पद पर 14,300-400-18,300/-रु. के वेतनमान में 27 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से और अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. 38012/11/2007 स्था. I:--कृषि एवं सहकारिता विभाग के अनुभाग अधिकारी, श्री जे.एल. भान अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 अगस्त, 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होंगे।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2007

सं. 5-5/2007:--मात्स्यिकी-प्रशासन-सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालय एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन में हेड क्लर्क (रु. 5,000-150-8,000/-रु.) के पद को पुनः पदनामित कर सहायक (रु. 5,000-150-8,000/-रु.) किया जाता है।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. ए-15012/4/2007 प्रशा. I:--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्, इस विभाग के श्री ए.के. इक्का, सहायक आयुक्त (मा.) 31 अगस्त, 2007 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किए जाते हैं।

पी.एल. मीना, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 08 मार्च 2007

सं. ए-11015/01/2004 स्था. I:--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सांख्यिकी अधिकारियों (अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-II

को उनके नामों के सामने दी गई तारीख से ग्रामीण विकास मंत्रालय में 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री के. वासव गोपाल	28.12.2006(पूर्वाह्न)
2.	श्री पी.वी. कृष्णा राव	05.01.2007(पूर्वाह्न)
3.	श्री आर. सेठी	12.01.2007(पूर्वाह्न)

2. इसे दिनांक 6 फरवरी, 2007 की पूर्ववर्ती समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए जारी किया जाता है।

महा बीर प्रसाद, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2007

सं. ए-12024/07/2005 स्था. III:--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जुलाई, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2006-सी.एस.-II तथा 31 जुलाई, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2006-सी.एस. II (I) के अनुपालन में राष्ट्रपति जी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव श्री पी.आर. गांधी को दिनांक 1.8.2007 के पूर्वाह्न से 31.12.2007 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक तदर्थ आधार पर 10,000--15,200/-रु. के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के.के. मिश्रा, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2007

सं. ए-19011/09/2007 स्था.:--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04 जुलाई, 2007 के आदेश सं. 5/6/2007-सी.एस.-I (डेस्क) के जरिए सुश्री वनिता सूद की तदर्थ आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव) में पदोन्नति तथा संस्कृति मंत्रालय में नियुक्ति के परिणामस्वरूप सुश्री सूद ने दिनांक 23 जुलाई, 2007 (पूर्वाह्न) से इस मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए. मुरुगैयन, अवर सचिव

दिनांक 27 जुलाई 2007

सं. ए-19011/05/2007 स्था.:--गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 20 जुलाई, 2007 के आदेश सं. 5/11/2004-ओ.एल. (सेवा) के जरिए श्री आर.पी. चोपड़ा, उप निदेशक (राजभाषा) की तदर्थ आधार पर पदोन्नति तथा संस्कृति मंत्रालय में नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री आर.पी. चोपड़ा ने दिनांक 25 जुलाई, 2007 (पूर्वाह्न) से इस मंत्रालय में उप निदेशक (रा.भा.) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए. मुरुगैयन, अवर सचिव

दिनांक 21 अगस्त 2007

सं. ए-19013/01/2007 स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 24 जुलाई, 2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/12/2007 ई ओ (एम एम-1) के अनुसरण में श्री रंजन प्रकाश ठाकुर (आई आर टी एस:1989) को, निदेशक स्तर पर संस्कृति मंत्री (श्रीमती अंबिका सोनी) के निजी सचिव के रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनका मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य समाप्त होने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, दिनांक 20 अगस्त, 2007 से नियुक्त किया जाता है।

ए. मुरुगैयन, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2007

सं. ए-19011/15/2005 स्था.:--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 9/15/2007-ईओ (एम एम-1) दिनांक 01.08.2007 के अनुसरण में राष्ट्रपति, जनजातीय कार्य मंत्रालय में निदेशक श्री भरत लाल, भारतीय वन सेवा (गुजरात:88) को पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्राम विकास मंत्रालय में निदेशक के रूप में अपने नए उत्तरदायित्व के संबंध में कार्य ग्रहण करने के लिए 27 अगस्त, 2007 के दोपहर के पहले से कार्यमुक्त करते हैं।

डा. सी.वी. धर्मारव, उप सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 5 सितम्बर 2007

सं. 14/12/एनसीएसटी/2007 प्रशा.:--राष्ट्रपति, श्री विल्फ्रेड लकड़ा, भा.प्र.से. (सीजी:73) की सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के, रूप में दिनांक 31.08.2007 (अपराह) से नियुक्ति करते हैं।

आर.पी. वशिष्ठ, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 06 सितम्बर 2007

सं. 2/(4)/2007 का.1:--राष्ट्रपति जी ने श्री एन. रवि शंकर, आईएस (यूके:1980) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दिनांक 06.09.2007 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 24 अगस्त 2007

सं. ए-39017/1/1995 प्रशा.II:--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री एम. सुब्रामणियम, (कर्मचारी कोड सं. 0339) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र,

आंध्र प्रदेश राज्य एकक, हैदराबाद से वैज्ञानिक/इंजीनियर ग्रेड. "एससी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 31 अगस्त, 1995 की अपराह से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर.एम. नायर, उप उपनिदेशक (प्रशा.II)

दिनांक 06 सितम्बर 2007

सं. पीएफ/0442/एनआईसी/2007 प्रशा.I:--केन्द्रीय सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली 1965, के नियम 15(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती एम. प्रभावती, वैज्ञानिक "सी" (कर्मचारी कोड सं. 0442) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, से सेवाओं से दिनांक 02.03.2007 से हटाया जाता है।

आर.एम. नायर, उप निदेशक (प्रशा.I)

सं. पीएफ/4669/एनआईसी/2007 प्रशा.I:--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री संजीव तिवारी, कर्मचारी कोड सं. 4669 का वैज्ञानिक "डी" राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली से त्यागपत्र दिनांक 4 मई, 2007 की अपराह से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर.एम. नायर, उप निदेशक (प्रशा.I)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 01 अगस्त 2007

सं. 1-3/2007-प्रशा.:--राष्ट्रपति सहर्ष कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.07.2007 के आदेश सं. 5/6/2007-सीएस.-I (डेस्क) के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत श्री राजकुमार, अनुभाग अधिकारी को तदर्थ आधार पर 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में, 31.07.2007 (पूर्वाह्न) से डाक विभाग में सहायक महा निदेशक सी एस एस का ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से अधिकारी को अनिश्चित काल के लिए ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु सीएसएस के ग्रेड-I में चयन सूची में शामिल किए जाने या इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है। कथित नियुक्ति एम.ए. नं. 2170/2006, ओ.ए. नं. 2793/2005, एम.ए. नं. 2710/2005 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.1.2007 के आदेश के अधधीन होगी।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सं. 1-3/2007-प्रशा.:--राष्ट्रपति सहर्ष कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.07.2007 के आदेश सं. 5/6/2007-सीएस.-I (डेस्क) के

तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में कार्यरत सुश्री पद्मा गणेश, अनुभाग अधिकारी को तदर्थ आधार पर 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में, 01.08.2007 (पूर्वाह्न) से डाक विभाग में सहायक महा निदेशक सी एस एस का ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से अधिकारी को अनिश्चित काल के लिए ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु सीएसएस के ग्रेड-I में चयन सूची में शामिल किए जाने या इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है। कथित नियुक्ति एम.ए. नं. 2170/2006, ओ.ए. नं. 2793/2005, एम.ए. नं. 2710/2005 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.1.2007 के आदेश के अधधीन होगी।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

दिनांक 08 अगस्त 2007

सं. 2-2/2002-प्रशा.1:--राष्ट्रपति सहर्ष डाक विभाग संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उसी संवर्ग में डेस्क अधिकारी के तौर पर 8.8.2007 से और अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं:--

1. सुश्री श्रीकला पी. वेणुगोपाल
2. श्री रणजीत कुमार सिन्हा
3. श्री एस. के. मिश्रा
4. श्री डी. के. झा

2. अधिकारी की कार्यावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों के लिए होगी बशर्ते कि वह पहले समाप्त न कर दी जाए। वे डेस्क अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस पद के साथ संबद्ध विशेष भत्ते के लिए पात्र होंगे।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. 2-3/2002-प्रशा.:--राष्ट्रपति, डाक विभाग की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित सहायकों को, उसी विभाग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में 6,500-200-10,500 रु. के वेतनमान में, 31.12.2007 तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हैं:--

1. श्री जय सिंह
2. श्री कैलाश चन्द
3. श्री नारायण दास
4. श्री लोकेश चन्द्र सिंह

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या सीएसएस

के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त 2007

शुद्धि-पत्र

सं. 2000/स्था. (राज.भ.)I/10/1:--रेलवे बोर्ड की दिनांक 19.11.2003 की अधिसूचना सं. 2000/स्था. (राज.भ.)I/10/1 में उल्लिखित श्री मनोज कुमार के नाम के सामने उल्लिखित अनंतिम शब्द को हटा दिया जाये।

ममता कण्डवाल, उप निदेशक स्था.(जीआर)

दिनांक 21 अगस्त 2007

सं. 1998/स्था. (राज.भ.)I/3/1:--रेलवे बोर्ड की दिनांक 9.8.2002 की अधिसूचना सं. 1998/स्था. (राज.भ.)I/3/1 और शुद्धि पत्र दिनांक 17.12.2002 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों के नाम के आगे से अनंतिम शब्द को हटा दिया जाये।

सर्वश्री/कु.

1. गगन गोयल
2. अजीत कुमार सिंह
3. सुबीन कुमार
4. टी. विष्णु भूषण

ममता कण्डवाल, उप निदेशक स्था.(जीआर)

दिनांक 29 अगस्त 2007

सं. 1997/स्था. (राज.भ.)I/8/1:--रेलवे बोर्ड की दिनांक 06.02.2001 की अधिसूचना सं. 97/स्था. (राज.भ.)I/8/1 में उल्लिखित श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के नाम के आगे से अनंतिम शब्द को हटा दिया जाये।

ममता कण्डवाल, उप निदेशक स्था.(जीआर)

दिनांक 3 सितम्बर 2007

सं. 1997/स्था. (राज.भ.)I/10/1:--रेलवे बोर्ड की दिनांक 14.06.1997 की अधिसूचना सं. 1997/स्था. (राज.भ.)I/10/1 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों के नाम के आगे से अनंतिम शब्द को हटा दिया जाये।

सर्वश्री/कु.

1. जी.वी. रमा देवी
2. अमितेश कुमार सिन्हा

3. प्रणव कुमार मल्लिक

4. मुगुनथन बी.

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था.(जीआर)

दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. 2000/स्था. (राज.भ.)I/4/1:--रेलवे बोर्ड की दिनांक 17.11.2003 की अधिसूचना सं. 2000/स्था. (राज.भ.)I/4/1 में उल्लिखित श्री स्वदेश कुमार सिंह के नाम के आगे से अनंतिम शब्द को हटा दिया जाये।

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था.(जीआर)

सं. 2000/स्था. (राज.भ.)I/8/1:--रेलवे बोर्ड की दिनांक 12.11.2003 की अधिसूचना सं. 2000/स्था. (राज.भ.)I/8/1 में उल्लिखित श्री संजय कुमार के नाम के आगे से अनंतिम शब्द को हटा दिया जाये।

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था.(जीआर)

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सं. ई (ओ)III-2007/आर एन/25:--भा.रे. खानपान एवं पर्यटन नि. में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री वी. श्रीराम व.प्र.ग्रे./भा.रे.या.से., ने 18.12.2006 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय

(पोत-परिवहन-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2007

सं. एल एच-13013/1/2001-एस एल:--राष्ट्रपति, श्री एडलु नेनावतु को 23 मई, 2007 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500 रु. के वेतनमान में दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में सहायक कार्यपालक इंजीनियर (इलैक्ट्रॉनिक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी.पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली-100 001, दिनांक 27 जुलाई 2006

सं. ए-19011/2/2004-स्था.:--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पोत परिवहन विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अवर सचिवों को रु. 12,000-375-16,500 के वेतनमान में वर्ष 1999 चयन सूची में सम्मिलित होने पर पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग में दिनांक 01.07.1999 से नियमित आधार पर उप सचिव (सी.एस.एस. की चयन श्रेणी) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

1. श्री रघुनाथ त्रिपाठी

2. श्री टी.एस. नेगी

सुभाष चन्द, अवर सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. ए-11019/1/2004-स्था.:--राष्ट्रपति, श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तवा, आई.ए.एस. (यूटी:93) को 15,100-400-18,300 रु. के वेतनमान में दिनांक 17.8.2007 (पूर्वाह्न) से पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में, उनकी बाकी बची पदावधि तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. ए-12025/71/2007-ई-II (बी):--राष्ट्रपति, डा. जे.एस. मैनी, भा.प्र.से. (पंजाब:74) को अपर सचिव के रैंक और वेतनमान में दिनांक 30.07.2007 (पूर्वाह्न) से अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा राजेंद्रन, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110 108, दिनांक 23 अगस्त 2007

सं. के-11011/14/2003-डीडीए 1ए:--राष्ट्रपति, द्वारा श्री एच. रजेश प्रसाद, आई.ए.एस. (यूटी:95) को दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप सचिव स्तर पर आयुक्त (भूमि प्रबंधन) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एन.टी. जोसेफ, अवर सचिव (डीडी 1ए)

सं. ए-11013/6/2005-डीडी 1ए:--दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा श्री संजीव सेनगुप्ता, वरिष्ठ वास्तुकार, सीपीडब्ल्यूडी को 14,300--18,300/ रुपये के वेतनमान में दिल्ली नगर कला आयोग के सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 31.05.2009 तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

एन.टी. जोसेफ, अवर सचिव (डीडी 1ए)

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110 004, the 30th August 2007

No. A. 36011/9/06-Adm.—Shri Faiz Ahmad Kidwai, IAS (MP : 96) Deputy Secretary, President's Secretariat is hereby designated as the Public Information Officer, President's Secretariat, under Section 5 (1) of the Right to Information Act, 2005, in place of Shri Nitin D. Wakankar, Deputy Press Secretary, President's Secretariat, with immediate effect.

BARUN MITRA, Jt. Secy.

New Delhi-110 004, the September 2007

No. A. 36011/41/96-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Barun Mitra, IAS (MT : 87) Joint Secretary to the President with effect from 25th July, 2007, until further orders.

F. A. KIDWAI, Dy. Secy.

No. A. 36011/06/06-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Christy L. Fernandez, IAS (GJ : 73) as Secretary to the President with effect from 25th July, 2007, until further orders.

F. A. KIDWAI, Dy. Secy.

No. A. 36011/7/06-Adm.—The President is pleased to appoint Ms. Vijay Thakur Singh, IFS (85) as Social Secretary, President's Secretariat, with effect from 06th August, 2007, until further orders.

F. A. KIDWAI, Dy. Secy.

No. A. 36011/17/06-Adm.—The President is pleased to appoint Shri R. J. Jadhav, IAS (MH : 96) as Private Secretary to the President with effect from 13th August, 2007, until further orders.

F. A. KIDWAI, Dy. Secy.

No. A. 36011/11/06-Adm.—The President is pleased to appoint Dr. Parvati Singh Bais, CMO (CGHS) as Physician to the President with effect from 10th August, 2007, until further orders.

F. A. KIDWAI, Dy. Secy.

No. A. 36011/14/06-Adm.—The President is pleased to appoint Smt. Archana Datta IIS (83) as Officer on Special

Duty (Public Relations), President's Secretariat, with effect from 13th August, 2007, until further orders.

F. A. KIDWAI, Dy. Secy.

No. A. 36011/15/06-Adm.—The President is pleased to appoint Shri G. K. Das as Private Secretary to the President with effect from 26th July, 2007, until further orders.

F. A. KIDWAI, Dy. Secy.

No. A. 36011/20/06-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Anand B. Kulkarni, IAS (MH : 82) as Officer on Special Duty with effect from 23rd August, 2007, until further orders.

F. A. KIDWAI, Dy. Secy.

No. A. 36011/21/06-Adm.—The President is pleased to appoint Smt. Sheba Samuel, Executive Manager (HO), ITDC, as Executive Housekeeper, President's Secretariat, with effect from 14th August, 2007, until further orders.

F. A. KIDWAI, Dy. Secy.

No. A. 36011/22/06-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Sharad Mehra as Officer on Special Duty with effect from 03rd September, 2007, until further orders.

F. A. KIDWAI, Dy. Secy.

New Delhi-110 004, the September 2007

No. A. 36011/9/06-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Faiz Ahmad Kidwai, IAS (MP : 96) as Deputy Secretary, President's Secretariat with effect from 03rd August, 2007, until further orders.

R. S. RANA, Dy. Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 10th September 2007

No. RS/2(i)/2002/96-Perl.—In continuation of the notification No. RS/2(i)/2002/95-Perl. dated 29th August, 2007, the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to extend the present term of Dr. Yogendra Narain, IAS (Retd.) as Secretary-General, Rajya Sabha upto 14th September, 2007.

C. B. RAI, Jt. Director

No. RS/6(iv)/2007/97-Perl.—Shri Ganesan Sundaresan has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the personal staff of Chairman, Committee on

Science & Technology, Environment and Forests (Dr. V. Maitreya) w.e.f. the forenoon of 30th August, 2007, until further orders.

2. The appointment of Shri Ganesan Sundaresan is at the discretion of the present Chairman, Committee on Science & Technology, Environment and Forests and will be co-terminus with the term of his office.

C. B. RAI, Jt. Director

### PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 21st August 2007

No. A-12025/01/2005-Admn. II.—The President is pleased to appoint the following Officers as Senior Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-, on purely ad hoc deputation basis, for a period of one year with effect from the dates mentioned against each, or till the post(s) is/are filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest :

Sl. No.	Name	Date of appointment
	S/Shri	
1.	B. S. Rathor, Research Officer, Planning Commission, New Delhi	26.07.2007 (FN)
2.	J. R. Meena, Assistant Director, Department of AYUSH, Ministry of Health & Family Welfare, Indian Red Cross Society Building, Red Cross Road, New Delhi	14.08.2007 (FN)

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 27th August 2007

No. A. 19 (22)/2000-Admn. II.—Consequent on his transfer to the post of Assistant Director (OL) in Department of Public Enterprises vide Department of Official Language's Office Memorandum No. 5/3/2005-OL (Services) dated 21.08.2007, Shri Ishwar Singh, Assistant Director (OL), Planning Commission is relieved of his duties from the Planning Commission w.e.f. 27.08.2007 (AN).

N. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 3rd September 2007

No. A. 12025/12/2006-Adm. I.—The President is pleased to appoint Shri Prosanta Kumar Dhar, Deputy Director (S&T) of Tariff Commission as Deputy Adviser (Chemicals) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on deputation basis for a period of four years w.e.f. 31.8.2007 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110 011, the 5th April 2007

No. K. 11017/3/2007-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Virender Singh, Judge of the Punjab and Haryana High Court as a Judge of the Jammu & Kashmir High Court and to direct him to assume charge of his office in the Jammu & Kashmir High Court on or before 20th April, 2007.

RAJIV AGARWAL, Additional Secretary

The 18th April 2007

No. K. 13024/1/2007-US. I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice Krishnasamy Naicker Mohan Ram, (ii) Shri Justice Palanichamy Jyothimani, (iii) Shri Justice Raju Regupathi, (iv) Smt. Justice Chitra Venkataraman, (v) Shri Justice Kamaluddin Nazeerulla Basha (vi) Shri Justice Pushapadi Perumal Subbaraja Janarathana Raja, (vii) Shri Justice Narayanan Nadar Paul Vasanthakumar, (viii) Kumari Justice Karuppiyah Sugana, (ix) Shri Justice Muthusami Jaichandren, (x) Shri Justice Subramanian Rajeswaran, (xi) Shri Justice Velu Dhanapalan, (xii) Shri Justice Ramalingam Sudhakar and (xiii) Shri Justice J. A. K. Samapathkumar, Additional Judges of the Madras High Court, as Permanent Judges of the Madras High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAJIV AGARWAL, Additional Secy.

The 27th August 2007

No. K. 13016/2/2007-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 24 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shrimati Veena Birbal to be an Additional Judge of the Delhi High Court for a period of two years with effect from the date she assumes charge of her office.

RAJIV AGARWAL, Additional Secy.

New Delhi-110 011, the 20th August 2007

No. K. 13011/1/2007-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Palanisamy Sathasivam, Judge of the Punjab & Haryana High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India, with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.



The 24th August 2007

No. K. 13012/2/2007-US. II.—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 22nd August, 2007, the President, in exercise of the powers conferred by article 224-A of the Constitution of India, is pleased to appoint Shri Justice Om Prakash Srivastava, a retired Judge of the Allahabad High Court, to sit and act as a Judge of the Allahabad High Court, for a period of one year with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K. 13016/3/2007-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice Kailash Gambhir, (ii) Shri Justice Gurindar Singh Sistani, (iii) Dr. Justice S. Muralidhar, and (iv) Kumari Justice Hima Kohli, Additional Judges of the Delhi High Court, to be Judges of the Delhi High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 30th August 2007

No. 14016/26/2004-UTS-II.—The Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has accepted the technical resignation tendered by Shri Ashwani Mudgal, Entry Grade officer of DANICS with effect from afternoon of 17th August, 2007, on his selection to Indian Administrative Service.

RAJNEESH TINGAL, Under Secy.

The 5th September 2007

No. 14016/17/2006-UTS-II.—Under Clause (c) of sub-rule (2) of Rule 7, read with sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with immediate effect :—

Sl. No.	Name of the Officer	Range No.	Date of Birth
	S/Shri		
1.	Rajender Kumar	D-I/585	14.06.1951
2.	Surinder Singh	D-I/638	28.03.1951
3.	Mangal Sain	D-I/985	30.06.1949

2. The appointment of the above mentioned three officers to Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007-Jagdish Chand Vs. UOI & Anr.

RAJNEESH TINGAL, Under Secy.

New Delhi, the 12th September 2007

No. 25/4/2005-ZCS.—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 15.9.2006, the appointment of Shri Peethambaran, Superintendent in the Northern Zonal Council Secretariat as Committee Officer in the same Secretariat in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-, on ad hoc basis is hereby continued for a further period of six months from 19th September, 2007 to 18th March, 2008, or regular incumbent joins the post, whichever is earlier.

SUMITA MUKHERJEE, Director (Sr.)

New Delhi, the 7th September 2007

No. A-32013/05/2007-Ad. I.—The President is pleased to appoint the following permanent Section Officers of CSS Cadre of Ministry of Home Affairs and officiating as Under Secretaries on ad hoc basis in the Ministry of Home Affairs, to the Grade-I of Central Secretariat Service (Under Secretary) on regular basis as per details below :

Sl. No.	Name of Officer	Seniority assigned in Grade-I of CSS as per DoP&T's OM	Deemed date of Appointment to Grade-I of CSS
---------	-----------------	--	--

1	2	3	4
---	---	---	---

#### SELECT LIST 2001

1.	Shri V. Subramanian	21	01.07.2001
2.	Shri P. K. Kaul	26	01.07.2001
3.	Shri V. K. Sethi	36	01.07.2001
4.	Shri Sisir Das on deputation as Tour Officer, PMO	42	01.07.2001
5.	Smt. Santha Thampi	44	01.07.2001
6.	Shri Gobind Singh	74	01.07.2001
7.	Shri Ram Swaroop	76	01.07.2001
8.	Shri Hans Raj Karara	80	01.07.2001

#### SELECT LIST 2002

9.	Shri K. K. Bajaj	40	01.07.2002
10.	Shri S. P. Shokhanda	52	01.07.2002

1	2	3	4
11.	Shri P. S. Sarcen— on deputation as Deputy Director (Management Services), ISTM	61	01.07.2002
12.	Shri Rabindra N. Mishra— on deputation as Deputy Director (Admn.), Lady Hardinge Medical College	73	01.07.2002
13.	Shri N. C. Zakhup	100	01.07.2002

J. B. SHARMA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)  
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

New Delhi-3, the 10th September 2007

No. A-35011/1/2004-CHTI/3560.—With the approval of the competent authority, the period of deputation of Shri R. S. Kaushik, Accounts Officer, Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs is extended for a period of next six months (i. e. upto 14th March, 2008), or, till further orders, or, till another officer joins, whichever is earlier.

(Smt.) KUSUM VIR, Director

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
& PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 31st August 2007

No. 13017/16/2007-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6 (1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Maharashtra and Karnataka, the Central Government hereby accords approval for inter cadre deputation of Dr. K. H. Govinda Raj, IAS (MH : 95) from Maharashtra to Karnataka for a period of three years.

ZILEY SINGH VICAL, Desk Officer

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 28th August 2007

No. D. III/460/CF-8/2007.—The President is pleased to recognise the appointment of Mr. Nand Khemka as Honorary Consul General of Jamaica in New Delhi with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Nand Khemka consist of all over India with the seat in New Delhi.

SHAM K. MUDGIL, Dy. Chief of Protocol (F)

No. D. III/460/CF-21/2007.—The President is pleased to recognise the appointment of Mr. Pramod Kumar Saraf as Honorary Consul of Kyrgyz Republic in Kolkata with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Pramod Kumar Saraf consist of the State of West Bengal with the seat in Kolkata.

SHAM K. MUDGIL, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 20th July 2007

No. 87 : (F. No. A-19014/10/2007-Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri Arnab Aich, Section Officer (ad hoc) in the cadre of Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy & Promotion, as Junior Analyst (Anti-Smuggling) in the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 20.07.2007 (FN) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 31st July 2007

CORRIGENDUM

No. A. 19012/5/2001-Ad. I.—Reference is invited to Department of Revenue's Notification No. 88 (issued from F. No. A. 19012/5/2001-Ad. I), appointing Shri Rajiv Rai, Deputy Secretary, an officer belonging to Central Secretariat Service, as Director in the Department of Revenue with effect from 24th July, 2007 and until further orders.

2. The words 'Ministry of Finance and Company Affairs' in the said Notification may be read as 'Ministry of Finance'. The other contents of the Notification will remain unchanged.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 8th August 2007

No. 92 (F. No. A. 19012/15/2007-Ad. I).—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 3/1/2006-CS. I, dated 11th July, 2007, the President is pleased to appoint Shri Labh Singh Chane, an officer belonging to CSS, as Director in the Department of Revenue with effect from 07.08.2007 (FN) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 9th August 2007

No. 58 (F. No. A. 19011/13/2007-Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri C. Rajendran, Indian Revenue Service (Income Tax : 1971), as Income Tax Ombudsman

at Kochi in the pay scale of Rs. 24,050-650-26,000/- for a period of 2 years with effect from 17.05.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 91 (F. No. A. 19012/12/2004-AD. I).—In continuation of this Department's Notification No. 91 dated 20.10.2004, the President is pleased to appoint Shri Sanjai Singh (ICAL : 93), Deputy Financial Adviser in the Department of Revenue as Director in the Department of Revenue, as a measure personal to him, with effect from 01.08.2007 (FN) for the balance period of five years, i.e. up to 17.10.2009 or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 10th August 2007

No. 93 : (F. No. A. 19011/19/2007-Ad. I).—The President is pleased to appoint Ms. Swapna Ray, Indian Revenue Service (Income Tax : 1971), as Income Tax Ombudsman at Kolkata in the pay scale of Rs. 24,050-650-26,000/- for a period of 2 years with effect from 31.05.2007 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 94 : (F. No. A. 19011/20/2007-Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri D. P. Panta, Indian Revenue Service (Income Tax : 1971), as Income Tax Ombudsman at Ahmedabad in the pay scale of Rs. 24,050-650-26,000/- for a period of 2 years with effect from 19.07.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 95 : (F. No. A. 19011/21/2007-Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri S. K. Iyer, Indian Revenue Service (Income Tax : 1971), as Income Tax Ombudsman at Bangalore in the pay scale of Rs. 24,050-650-26,000/- for a period of 2 years with effect from 16.07.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 97 : (F. No. A. 19011/23/2007-Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri N. B. Singh, IRS (Income Tax : 1971), as Member of the Central Board of Direct Taxes (CBDT) in the Ministry of Finance, Department of Revenue with effect from 07.08.2007 (AN) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 26th August 2007

No. 93 : (F. No. A. 19012/16/2007-Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri S. K. Gotru, IRS (Income Tax : 1995), as Deputy Secretary in the Department of Revenue for a period of four years with effect from 09.08.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

New Delhi, the 2nd August 2007

No. /2007. (F. No. A-32014/1/2002-AD. IA).—In pursuance of Department of Expenditure, Cadre Administration Section's O. M. No. A-32014/4/2007-CAS dated 23.07.2007 the President is pleased to continue the ad hoc appointment of the following officers to the post of PPS for a further period of six months upto 31.12.2007 or till regular officers become available or until further orders, whichever is earlier.

S/Shri/Smt.

1. C. Gopinathan
2. Maninder Jit Singh
3. A. Balakrishnan
4. V. P. Kunjachan
5. V. B. Sharma
6. S. K. Gupta
7. S. K. Srivastava
8. Rash Kumari Ghai
9. P. L. Soni
10. R. K. Verma

2. All other terms and conditions already in force will remain unchanged.

BHUPINDER SINGH, Under Secy.

No. of 2007. (F. No. A-19013/3/2003-Ad. IA).—In pursuance of the Department of Personnel & Training O. M. No. 5/5/2007-CS. II dated 11.07.2007 and Cadre Administration Section, Department of Expenditure's O. M. No. A. 32022/2/2004-CAS dated 23.07.2007, the President is pleased to extend the ad hoc promotion of Shri R. K. Masand, as Sr. Principal Private Secretary for a further period of six months upto 31.12.2007 or till a regular Sr. Principal Private Secretary becomes available or till further orders, whichever is earlier.

2. Ad hoc promotion of Shri R. K. Masand to the post of Senior Principal Private Secretary shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely or to claim any seniority in the grade of PPS.

BHUPINDER SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 30th August 2007

### CORRIGENDUM

No. 3 (F. No. 4/4/2007-Ad. ED).—Reference this Ministry's Notification of even number dated 19.6.2007. The name of the Officer may be read as "Sanjay Tripathi" instead of "Sanjay Tripathy".

V. P. ARORA, Under Secy.

### (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 31st August 2007

No. A-19011/9/99-Ad. IA (Pension).—On attaining the age of superannuation, Shri Prem Ranjan Das, Additional Budget Officer of the Department of Economic Affairs stands retired from Government Service with effect from 31.08.2007 (AN). His name shall be struck off from the rolls of the Department of Economic Affairs with effect from the same date.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 6th September 2007

No. A. 22011/1/2007-Admn. IA.—The President is pleased to appoint Shri Anupam Mitra (IES), a Junior Time Scale Officer of IES, as Assistant Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 20th August, 2007 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

### (DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi-110 001, the 14th August 2007

No. A-13/7/2002-DRT.—On completion of his tenure, Shri S. K. Mohapatra, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Ranchi will demit the charge of the post of Presiding Officer w.e.f. 14th August, 2007 (A.N.).

A. THOMAS, Under Secy.

The 22nd August 2007

No. A-19014/1/2007-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri Pranay Kumar Soni, Section Officer, Ministry of Defence to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal, Nagpur on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 16.07.2007 (F.N.) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-19014/3/2007-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri Susanta Kumar Adhikari, an Officer of West Bengal Civil Services (Exc.) to the post of Secretary/Registrar in the Debts Recovery Tribunal-I, Kolkata on deputation basis, in the pay scale of Rs. 12,750-375-16,500/- for a period of three years w.e.f. 06.07.2007 (F.N.) or until further orders, whichever is earlier.

A THOMAS, Under Secy.

No. A-19014/7/2007-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri Anantha Rama Arali, Section Officer, Ministry of Defence to the post of Assistant Registrar in the Debts Recovery Tribunal, Bangalore on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 14.06.2007 (F.N.) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 31st August 2007

No. 13/7/2002-DRT.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Dr. S. D. Singh, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Kolkata, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Guwahati in addition to his own charge with immediate effect, without any additional remuneration.

A. THOMAS, Under Secy.

No. 13/7/2002-DRT.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri M. R. Farooqui, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Patna, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Ranchi, in addition to his own charge with immediate effect, without any additional remuneration.

A. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, the 31st August 2007

No. A-19011/255/2005-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri D. P. Schrawat, Senior Principal Private Secretary in the Ministry of Finance, Department of Financial Services stands retired from the Government Service with effect from the afternoon of 31st August, 2007.

AMRIK SINGH, Under Secy.

### (DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 3rd September 2007

No. A. 12026/5/2007-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri Manoj Sahay, IA&AS (1994) as Deputy

Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on Central Deputation for a period of four years with effect from the forenoon of the 3rd September 2007 or until further orders, whichever event takes place earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 5th September 2007

No. A. 12026/5/2007.Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri Praveen Kumar Monga, IA&AS (1995) as Deputy Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on Central Deputation for a period of four years with effect from the forenoon of the 10th August, 2007 or till the date of his superannuation or until further orders, whichever event takes place the earliest.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 6th September 2007

No. A. 32013/1/2006-Ad. II.—The President is pleased to extend the ad hoc promotion of the following Assistant Deputy Directors in the Staff Inspection Unit of this department as Deputy Directors in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a further period of six months w.e.f. 19.7.2007 to 18.1.2008 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name
1.	Shri B. L. Sharma
2.	Shri Ravinder Kumar

2. The extension of ad hoc promotion of the above-mentioned officers will not bestow on them any claim for regular promotion and the services rendered by them on ad hoc basis in the grade will not count for promotion in the next higher grade.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

#### APPELLATE AUTHORITY FOR INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION

New Delhi-110 001, the 22nd August 2007

No. 1/3/2007-Adm.—The President is pleased to appoint Shri M. P. Balakrishnan, a Private Secretary of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation as Principal Private Secretary in this Authority in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 21.08.2007 (FN)

on deputation basis, initially for a period of one year or abolition of AAIFR or until further orders, whichever is earlier.

HANWANT KISHORE, Under Secy.

#### MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 14th August 2007

No. A-12011/1/2007-Est.—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated 15th May, 2007, the date of appointment of Shri S. C. Batra, Principal Private Secretary (ad hoc) of CSSS cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas may be read as 20th April, 2007 (AN) instead of 23rd April, 2007 (FN).

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

#### MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 24th August 2007

No. A-11011/5/2006-HR-II.—Consequent on nomination made by Ministry of Railways (Railway Board) vide Order No. ERB-I/2007-2/48 dated 16.8.2007, the President is pleased to appoint Shri Deepak Kumar, Director (Movement) in the pay scale of Rs. 14,300—18,300/- for a period of 5 years in the Department of Fertilizer, New Delhi w.e.f. forenoon of 24.8.2007 or until further orders.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

The 31st August 2007

No. A-32011/9/2007-HR-II.—In pursuance of DoPT's instructions contained in O. M. No. 5/5/2007-CS. II, dated 11.07.2007, the President is pleased to extend the ad hoc promotion of Shri Nand Lal as Sr. Principal Private Secretary for a further period from 01.07.2007 to 31.12.2007 or till regular Sr. PPS become available or until further orders whichever is earlier.

2. The continuation of appointment is purely ad hoc in nature and shall not confer any right on him to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. PPS of CSSS.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

No. A-32011/9/2007-HR-II.—In pursuance of DoPT's instructions contained in O. M. No. 5/5/2007-CS. II, dated 11.07.2007, the President is pleased to extend the ad hoc promotion of Shri A. K. Bahl as Sr. Principal Private Secretary for a further period from 01.07.2007 to 31.12.2007 or till regular Sr. PPS become available or until further orders, whichever is earlier.

2. The continuation of appointment is purely ad hoc in nature and shall not confer any right on him to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. PPS of CSSS.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

No. A-32011/10/2007-HR-II.—In pursuance of DoPT's instructions contained in O. M. No. 5/6/2007-CS. II, dated 13.07.2007, the President is pleased to extend the ad hoc promotion of Shri V. S. Manian Principal Private Secretary for a further period from 01.07.2007 to 31.12.2007 or till regular PPS become available or until further orders, whichever is earlier.

2. The continuation of appointment is purely ad hoc in nature and shall not confer any right on him to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

The 5th August 2007

No. A-32011/10/2007-HR-II.—In pursuance of DoPT's instructions contained in O. M. No. 5/6/2007-CS. II, dated 13.07.2007, the President is pleased to extend the ad hoc promotion of Shri N. Hemrajani Principal Private Secretary for a further period from 01.07.2007 to 31.12.2007 or till regular PPS become available or until further orders, whichever is earlier.

2. The continuation of appointment is purely ad hoc in nature and shall not confer any right on him to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

#### MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 7th September 2007

No. 3/2/2006-Estt.—In pursuance of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language's Office Order No. 5/3/2005-OL(S) dated 21.8.2007, the President is pleased to appoint Shri Ravi Dutt as Assistant Director (Official Language) in the Ministry of Mines with effect from 27.08.2007 (A. N.).

R. K. MALHOTRA, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 5th September 2007

No. SM/01/28/2006.—The President is pleased to appoint following Deputy Superintending Surveyors in Survey of India to the post of Superintending Surveyor in

the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in that Department on regular basis with effect from the date(s) as shown against each until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Appointment
1.	Shri Neeraj Kumar	14.08.2007
2.	Smt. Bindu Mangat	18.07.2007

B. K. RAICHANDANI, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 30th August 2007

No. A.12025/31/2006-CHS. III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Neera Chaudhry to the post of Assistant Professor in the Speciality of Neurology in the Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation for a period of one year with effect from the forenoon of the 22.04.2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

The 31st August 2007

No. A. 12025/17/2005-CHS. III.—The President is pleased to appoint Dr. Basudeb Das to the post of Assistant Professor in the Speciality of Psychiatry in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service on probation for one year with effect from the forenoon of 28th December, 2006 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th September 2007

No. A. 38013/01/2007-Estt. I.—On attaining the age of superannuation, Smt. Santosh Malhotra, PS, an officer of the CSSS and posted as Private Secretary in the Ministry of Health and Family Welfare, has retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st August, 2007.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

New Delhi, the 9th August 2007

No. A-19011/2/2007-AYUSH (E. II).—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/6/2007-

CS. I (Desk) dated 04.07.2007 & Order Nos. 5/8/2007-CS. I (Desk) 17.07.2007 & 26.07.2007, the following Section Officers of Central Secretariat Service, are appointed to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service purely on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), M/o Health & Family Welfare with effect from the dates mentioned against their names until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of appointment as US
i.	Shri Suman Chatterjee (CSL No. 5755)	31.07.2007 (FN)
ii.	Shri Som Dutt Sharma (CSL No. 5766)	24.07.2007 (FN)

2. The promotion of the abovementioned officers as Under Secretary on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The ad hoc appointment shall further be subject to the order dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M. A. No. 2170/2006, O. A. No. 2793/2005, M. A. No. 2710/2005.

ANSHUMANN SHARMA, Under Secy.

The 16th August 2007

No. A-38012/1/2006-AYUSH (E-II).—Consequent upon acceptance of the notice for voluntary retirement by the Competent Authority under FR 56(k)(1) subject to provisions of Rule 9 of the CCS (Pension) Rules, 1972, Shri A. K. Nigam, an officer belonging to Central Secretariat Service, Under Secretary, in the Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), M/o Health & Family Welfare retired from Government Service with effect from 01.06.2007.

ANSHUMANN SHARMA, Under Secy.

The 22nd August 2007

No. A-12022/1/99-ISM (E-II).—The President is pleased to appoint Smt. Meenakshi Negi, an officer belonging to Indian Forest Service (KN : 1989), as Director on Central

Deputation in the Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 21st August, 2007 for a period of 5 years or until further orders, whichever is earlier.

ANSHUMANN SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &  
COOPERATION)

New Delhi, the 21st August 2007

No. 19011/532/07-E. II.—With the approval of the Competent Authority, Shri Vijay Kumar Bhatnagar a regular Senior Hindi Translator (Central Secretariat Official Language Service) is appointed as Assistant Director (O.L.) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- on ad hoc promotion basis with effect from 25th July, 2007 for a period of 6 months or till the appointment of regular incumbent or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and will not confer any right to claim seniority in the grade of Assistant Director (O. L.).

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 22nd August 2007

No. 19011/531/2007-E. II.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Aggarwal, a Junior Administrative Grade (JAG) officer of Indian Statistical Service (ISS), to the post of Joint Director, in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/-, in this Department w.e.f. the forenoon of 28.06.2007, until further orders.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 29th August 2007

No. 19011/533/07-E. II.—Consequent upon her transfer from Office of Registrar General, India, President is pleased to appoint Smt. Vimla Sharma as Assistant Director (O.L.) in the Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the forenoon of 30th July 2007.

K. SANJAYAN, Under Secy.

No. 32011/13/2006-E. II.—The President is pleased to appoint Smt. Seema Sethi, a regular Senior Technical Assistant (Cooperation/Credit) Grade-I, in the Department of Agriculture & Cooperation as Assistant Director (Cooperation/Credit) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis, with effect from the forenoon of 3.08.2007, until further orders.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 30th August 2007

No. A-19012/8/2007-EA.—The President is pleased to appoint Shri N. Srinivas Rao, a Junior Administrative Grade (JAG) officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Deputy Economic Adviser, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/-, with effect from the forenoon of the 28th May, 2007.

The promotion is subject to the final order in Civil Appeal 1366-1367/2004, pending with the Apex Court and Civil Writ Petition No. 5953/2002 pending in the High Court of Delhi.

K. SANJAYAN, Under Secy.

No. A-19012/9/2007-EA.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay, a Junior Administrative Grade (JAG) officer of Indian Statistical Service (ISS), to the post of Deputy Statistical Adviser, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/-, with effect from the forenoon of the 21st June, 2007.

The promotion is on ad hoc basis and shall be subject to decision in the litigations on the subject pending in various Courts of Law.

K. SANJAYAN, Under Secy.

New Delhi, the 3rd September 2007

No. 4-2/2004-Extn.—The President is pleased to appoint Shri Manoranjan Panda, Assistant Manager (F&A), Rail Vikas Nigam Limited, Bhubaneswar to the post of Deputy Director (Accounts), General Central Service, Group-A, Gazetted in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Directorate of Extension on deputation basis w.e.f. the forenoon of 6th August, 2007 for a period not exceeding three years or until further orders whichever is earlier.

RANI TALREJA, Under Secy.

New Delhi, the 29th August 2007

No. 27-2738/2007-Estt. I.—The President is pleased to appoint Shri Prasanta Kumar Swain, IPoS (87), as Director in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the afternoon of 27th August, 2007 and until further orders.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 31st August 2007

No. 38012/11/2007-Estt. I.—Shri J. L. Bhan, Section Officer in the Department of Agriculture and Cooperation

will retire from Government service with effect from the afternoon of 31st August, 2007 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi-01, the 29th August 2007

No. 5-5/2007.Fy. Admn.—With the approval of the competent authority the post of Head Clerk (Rs. 5,000-150-8,000/-) in Integrated Fisheries Project, Cochin, a subordinate office under this Department has been re-designated as Assistant (Rs. 5,000-150-8,000/-).

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

New Delhi, the 31st August 2007

No. A-15012/4/2007-Admn. I.—On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Ekka, Assistant Commissioner (Fy.) in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 31st August, 2007.

P. L. MEENA, Under Secy.

#### MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 8th March 2007

No. A-11015/01/2004-Estt.-I.—The President is pleased to appoint the following Statistical Officers (Statistical Investigator Grade-II of SSS) on regular basis in the Ministry of Rural Development in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name of Officer	Date of Joining
1.	Shri K. Basava Gopal	28.12.2006 (F.N.)
2.	Shri P. V. Krishna Rao	05.01.2007 (F.N.)
3.	Shri R. Sethy	12.01.2007 (F.N.)

2. This issues in supersession of earlier notification of even number dated 6th February 2007.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 3rd August 2007

No. A. 12024/7/2005-E-III.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/7/2006-CS. II dated 5th July, 2007 and O. M. No. 5/7/2006-CS-II(i)



dated 31st July, 2007, the President is pleased to appoint Shri P. R. Gandhi, P. S. belonging to CSSS Cadre of Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development as Principal Private Secretary in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- on ad hoc basis w.e.f. 1.08.2007 (forenoon) upto 31.12.2007 or until further orders.

K. K. MISHRA, Under Secy.

---

#### MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi-110 001, the 28th August 2007

No. PF/J/30-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Joe Sebastian, Indian Revenue Service (Income Tax : 1990) as Director in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Ministry of Youth Affairs & Sports with effect from 23rd August, 2007 (FN) for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

B. B. MUKHERJEE, Under Secy.

---

#### MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 26th July 2007

No. A. 19011/09/2007-Estt.—Consequent on her promotion to the Grade I (Under Secretary) on ad hoc basis and posting in the Ministry of Culture vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/6/2007-CS. I (Desk) dated 4th July, 2007, Ms. Vanita Sood has assumed the charge of Under Secretary in this Ministry on 23rd July, 2007 (FN).

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

The 27th July 2007

No. A. 19011/5/2007-Estt.—Consequent on his promotion to the post of Deputy Director (Q. L.) on ad hoc basis vide Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) Order No. 5/11/2004--OL (Service) dated 20.7.2007 and on his posting in the Ministry of Culture, Shri R. P. Chopra, Deputy Director (OL) has assumed the charge of Deputy Director (OL) in this Ministry on 25th July, 2007 (FN).

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

The 21st August 2007

No. A-11013/1/2007-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer) Office Memorandum No. 4/12/2007-EO (MM-I) dated 24th July, 2007, Shri Ranjan Prakash Thakur, (IRTS : 1989) is appointed as Private Secretary to the Minister of Culture (Smt. Ambika Soni) at the level of Director w.e.f. 20th August, 2007 (FN), for a period of five years or till he ceases to function as Private Secretary to the

Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

---

#### MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 27th August 2007

No. 19011/15/2005-Estt.—In pursuance of DOPT's O. M. No. 9.15.2007-EO (MM.I) dated 01.08.2007, the President is pleased to relieve Sh. Bharat Lal, IFS (GJ : 88) Director in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 27th August, 2007 to take up his new assignment as Director in the Department of Drinking Water Supply, Ministry of Rural Development.

Dr. C. V. DHARMA RAO, Dy. Secy.

---

#### NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

New Delhi-110 003, the 5th September 2007

No. 14/12/NCST/2007-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Wilfred Lakra, IAS (CG : 73) as Secretary, National Commission for Scheduled Tribes w.e.f. afternoon of 31.08.2007.

R. P. VASISHTHA, Dy. Secy.

---

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110 003, the 6th September 2007

No. 2(4)/2007-Pers. I.—The President is pleased to appoint Shri N. Ravi Shanker, IAS (UK : 1980) as Joint Secretary in the Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of 06.09.2007 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

GIRISH SAHAI, Dy. Director

---

#### NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110 003, the 24th August 2007

No. A-39017/1/1995-Admn.-II.—The President is pleased to accept the resignation of Sh. M. Subrahmanyam, (Emp. Code No. 0339), from the post of Scientist/Engineer Gr. 'SC', National Informatics Centre—Andhra Pradesh State Unit, Hyderabad, with effect from the afternoon of 31.8.1995 and he is relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm-II)

The 6th September 2007

No. PF/0442/NIC/Adm. I.—The President in exercise of the powers conferred under Rule 15(4) of CCS (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 removes Smt. M. Prabhavati, Scientist 'C', Emp. Code-0442, from service in the National Informatics Center with effect from 02.03.2007.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm.-I)

No. PF/4669/NIC/2007-Adm.-I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Sanjeev Tewari, Emp. Code-4669, from the post of Scientist "D", NIC-HQ, New Delhi with effect from the afternoon of 4th May, 2007 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm. I)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 1st August 2007

No. 1-3/2007-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's order No. 5/6/2007-CS. I (Desk) dated 25.07.2007, the President is pleased to appoint Sh. Raj Kumar, Section Officer, in the Ministry of Human Resources Development, Department of Higher Education as Assistant Director General [Grade-I (U. S.) of CSS] in the Department of Posts in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad hoc basis w.e.f. 31.07.2007 (FN).

2. The ad hoc appointment shall not confer any right to the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select list of Grade-I of CSS for regular appointment or to claim seniority in that grade. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor. The aforesaid ad hoc appointment shall further be subjected to the order dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principle Bench, New Delhi in M. A. No. 2170/2006, O. A. No. 2793/2005, M. A. No. 2710/2005.

BHAGWAN DAS, Asstt. Director General (Admn.)

No. 1-3/2007-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/6/2007-CS. I (Desk) dated 25.07.2007, the President is pleased to appoint Ms. Padma Ganesh, Section Officer, in the Ministry of Information & Broadcasting, as Assistant Director General [Grade-I (U. S.) of CSS] in the Department of Posts in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad hoc basis w.e.f. 1.08.2007 (F/N).

2. The ad hoc appointment shall not confer any right to the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select list of Grade-I of CSS for regular

appointment or to claim seniority in that grade. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor. The aforesaid ad hoc appointment shall further be subjected to the order dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principle Bench, New Delhi in M. A. No. 2170/2006, O. A. No. 2793/2005, M. A. No. 2710/2005.

BHAGWAN DAS, Asstt. Director General (Admn.)

The 8th August 2007

No. 2-2/2002-Admn.—The President is pleased to appoint the following Section Officers of the cadre of Department of Posts as Desk Officers in the same Department with effect from 08.08.2007 and until further orders :—

1. Ms. Sreekala P. Venugopal
2. Shri Ranjeet Kumar Sinha
3. Shri S. K. Mishra
4. Shri D. K. Jha

2. The tenure of the officers will be three years from the date of appointment unless curtailed earlier and they will be entitled for the special allowance attached to the post from the date of their joining the post of Desk Officer.

BHAGWAN DAS, Asstt. Director General (Admn.)

The 30th August 2007

No. 2-3/2002-Admn.—The President is pleased to appoint the following Assistants of the Central Secretariat Service of Department of Posts as Section Officers in the same Deptt. on ad hoc basis upto 31.12.2007 or till regular officers becomes available, whichever is earlier in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from the date of their taking over charge of the post of Section Officer :

1. Shri Jai Singh
2. Shri Kailash Chand
3. Shri Narain Das
4. Shri Lokesh Chandra Singh

2. The above appointment will not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.

BHAGWAN DAS, Asstt. Director General (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS  
RAILWAY BOARD

New Delhi, the 17th August 2007

CORRIGENDA

No. 2000/E(GR)/10/1.—The word provisional indicated against the name of Shri Manoj Kumar Jain notified vide

Railway Board's notification No. 2000/E(GR)/10/1 dated 19.11.2003 may be deleted.

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)

The 21st August 2007

No. 98/E(GR)/3/1.—The word provisional indicated against the names of the following officers notified vide Railway Board's notification No. 98/E(GR)/3/1 dated 9.8.2002 and Corrigendum dated 17.12.2002 may be deleted.

1. Shri Gagan Goyal
2. Shri Ajit Kumar Singh
3. Shri Subin Kumar
4. T. Vishnu Bhushan

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)

The 29th August 2007

No. 97/E(GR)/8/1.—The word provisional ear-marked against the name of Shri Surendra Kumar Sharma mentioned in Railway Board's notification No. 97/E(GR)/8/1 dated 06.02.2001 may be deleted.

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)

The 3rd September 2007

No. 97/E(GR)/10/1.—The word provisional insidicated against the names of the following officers notified vide Railway Board's notification No. 97/E(GR)/10/1 dated 14.06.2001 may be deleted.

S/Shri/Ms.

1. G. V. Rama Devi
2. Amitesh Kumar Sinha
3. Pranav Kumar Mallick
4. Mugunthan B.

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)

The 6th September 2007

No. 2000/E(GR)/4/1.—The word provisional indicated against the name of Shri Swadesh Kumar Singh mentioned in Railway Board's notification No. 2000/E(GR)/4/1 dated 17.11.2003 may be deleted.

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)

No. 2000/E(GR)/8/1.—The word provisional ear-marked against the name of Shri Sanjay Kumar mentioned in Railway Board's notification No. 2000/E(GR)/8/1 dated 12.11.2003 may be deleted.

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)

New Delhi, the 11th September 2007

No. E(O)III-2007/RN/25.—Consequent upon his permanent absorption in IRCTC, Shri V Sriram, SA Grade/IRTS, has resigned from Railway service with effect from 18.12.2006.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &  
HIGHWAYS  
(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 27th August 2007

No. LH-13013/1/2001-SL.—The President is pleased to appoint Shri Ailu Nenavatu to the post of Assistant Executive Engineer (Electronics) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the forenoon of 23rd May, 2007, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

New Delhi-110 001, the 27th August 2007

No. A-19011/02/04-Estt.—The President is pleased to appoint the following Under Secretaries of Central Secretariat Services, presently working as ad hoc Deputy Secretaries in the Department of Shipping, as Deputy Secretaries (Selection Grade of CSS) on regular basis w.e.f. 1.7.1999 consequent upon his inclusion in the Select List of 1999 in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-.

(i) Shri Raghunath Tripathi

(ii) Shri T. S. Negi

SUBHASH CHAND, Under Secy.

The 31st August 2007

No. A-11019/1/04-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Punya Salila Srivastava, IAS (UT : 93) as Director in the Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300/- w.e.f. 17.08.2007 (FN) for the

balance period of her tenure which would now be up to 03.07.2010 or until further orders, whichever event occurs earlier.

SUBHASH CHAND, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT &  
HIGHWAYS)

New Delhi, the 29th August 2007

No. A-12025/71/2007-E-II (B).—The President is pleased to appoint Dr. J. S. Maini, IAS (PB : 74) as Chairman, National Highways Authority of India in the rank and pay of Additional Secretary with effect from 30th July, 2007 (FN).

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi-110 008, the 23rd August 2007

No. K-11011/14/2003-DDIA.—The President is pleased to appoint Shri H. Rajesh Prasad, IAS (UT : 95) as

Commissioner (Land Management) in the Delhi Development Authority at the level of Deputy Secretary for a period of four years from the date of his taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

N. T. JOSEPH, Under Secy. (DD 1A)

No. A-11013/6/2005-DDIA.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby appoint Shri Sanjib Sengupta, Senior Architect in CPWD, as Secretary to the Delhi Urban Art Commission in the scale of Rs. 14,300—18,300/- on deputation basis w.e.f. the date of assumption of charge of the post, for a period up to 31.5.2009 or until further orders, whichever event happens earlier.

N. T. JOSEPH, Under Secy. (DD 1A)